

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र  
Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 15]	दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 18, 2019/पौष 28, 1940	[ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 717
No. 15]	DELHI, FRIDAY, JANUARY 18, 2019/PAUSHA 28, 1940	[N.C.T.D. No. 717

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 17 जनवरी, 2019

सं.फा.16(592)/श.वि./जल/2016/98.—दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 (1998 का दिल्ली अधिनियम संख्या 4) की धारा 7 तथा 51 के साथ पठित धारा 109 की उपधारा (2) के खंड (एम) के अन्तर्गत दिल्ली प्रशासन की दिनांक 17 सितम्बर, 1984 अधिसूचना सं. एफ. 9/53/83—एलएसजी/5727 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई बातें या हटाये जाने वाली बातों को छोड़कर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात दिल्ली जल बोर्ड में कारपेन्टर—सह—पैटर्न मेकर/पैटर्न मेकर के पद की भर्ती पद्धति संबंधी दिल्ली जल बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियम इसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, अर्थात्:—

- संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ :— (1) इन विनियमों को दिल्ली जल बोर्ड कारपेन्टर—सह—पैटर्न मेकर/पैटर्न मेकर के पद के भर्ती व पदोन्नति विनियम, 2018 कहा जाये।  
(2) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :— उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा उसके साथ संलग्न वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु-सीमा तथा अन्य योग्यताएं** :- उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :- कोई भी व्यक्ति

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से, विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है; या

(ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह या विवाह का अनुबंध किया है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :

भारत यह है कि दिल्ली जल बोर्ड संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्तियों और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये अन्य आधार है/हैं, तो किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. **छूट प्रदान करने की शक्ति** :- जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।

6. **बचाव** :- इन विनियमों में कोई भी बात इस संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

#### अनुसूची

1.	पदनाम	:	कारपेन्टर –सह- पैटर्न मेकर/पैटर्न मेकर
2.	पदों की संख्या	:	02 (2018)* इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	वर्गीकरण	:	श्रेणी “ग”
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर –5 (29200–92300 /—रुपये)
5.	क्या चयन पद है या गैर चयन पद	:	चयन
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	18 तथा 27 वर्ष के बीच । केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों तथा दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों के लिए शिथिलनीय । <b>नोट</b> – आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि है तथा असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीजन व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षदीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	:	<b>अनिवार्य</b> :- 1. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/बोर्ड/स्कूल से बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण 2. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान से कारपेन्टर –सह- पैटर्न मेकर के ट्रेड में डिप्लोमा।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित आयु एवं शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होगी।	:	लागू नहीं

9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	सीधी भर्ती वालों के लिए दो वर्ष ।
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	1. 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा । 2. 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ।
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन किया जाना है	:	<b>पदोन्नति :-</b> नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरान्त 5 वर्ष की सेवा सहित पे मैट्रिक्स के स्तर -4 (25500-81100/-रुपये) में कार्यरत पैटर्न आईएसटी वर्ग ।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	:	“ग” वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति, स्थाईकरण हेतु 1. निदेशक (ए. एण्ड पी.) -अध्यक्ष 2. एस. ई. (सिविल) - सदस्य 3. ए. सी. (जल) - सदस्य
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है ।	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर,  
पी. के. शुक्ला, अनुभाग अधिकारी (जल)

## URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

### NOTIFICATION

Delhi, the 17th January, 2019

**No. 16(592)/UD/W/2016/98.**—The following recruitment regulations made by the Delhi Water Board under clause (m) sub-section (2) of section 109 read with section 7 and 51 of the Delhi Water Board Act, 1998 (Delhi Act. No. 4 of 1998) and in supersession of the Delhi Administration Notification No. F9/53/83-LSG-5727 dated the 17<sup>th</sup> September, 1984 except as respects things done or omitted to be done before such supersession after approval of Competent Authority for regulating the method or recruitment to the post of **Carpenter-cum-Pattern Maker/ Pattern Maker** in Delhi Water Board, are hereby published, namely :-

**1. Short title and commencement** - (I) These regulations may be called Delhi Jal Board Carpenter-cum-Pattern Maker/ Pattern Maker the Recruitment and Promotion Regulation, 2018.

(II) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

**2. Number of posts, classification and Level in the Pay Matrix-** The number of posts, classification and Level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these regulations.

**3. Method of recruitment, age limit and other qualifications** -The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

**4 Disqualification** — No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that Delhi Water Board, may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

**5. Power to Relax** - Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving** - Nothing in these regulations shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government of India from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

NAME OF POST.	NO. OF POSTS	CLASSIFICATION	LEVEL IN THE PAY MATRIX	WHETHER SELECTION OR NON-SELECTION POST.	AGE LIMIT FOR DIRECT RECRUITS.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
CARPENTER-CUM-PATTERN MAKER/ PATTERN MAKER.	2 (2018)* SUBJECT TO VARIATION DEPENDENT ON WORKLOAD.	CATEGORY 'C'	LEVEL 5 (Rs 29200 - 92300) IN THE PAY MATRIX.	SELECTION	BETWEEN 18 TO 27 YEARS. (RELAXABLE FOR GOVERNMENT SERVANTS AND THE EMPLOYEES OF THE DELHI JAL BOARD UP TO FIVE YEARS IN ACCORDANCE WITH THE INSTRUCTIONS ISSUED BY THE CENTRAL GOVT.).  <b>NOTE :-</b> THE CRUCIAL DATE FOR DETERMINING THE AGE LIMIT SHALL BE THE CLOSING DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS FROM CANDIDATES IN INDIA (AND NOT THE CLOSING DATE PRESCRIBED FOR THOSE IN ASSAM, MEGHALAYA, ARUNACHAL PRADESH, MIZORAM, MANIPUR, NAGALAND, TRIPURA, SIKKIM, LADHAKH DIVISION OF J&K STATE LAHAUL & SPITI DISTRICT AND PANGI SUB-DIVISION OF

					CHAMBA DISTRICT OF HIMACHAL PARDESH, ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS OR LAKSHADWEEP).
--	--	--	--	--	---

EDUCATIONAL & OTHER QUALIFICATION REQUIRED FOR DIRECT RECRUITS	WHETHER AGE AND EDUCATIONAL QUALIFICATION PRESCRIBED FOR DIRECT RECRUITS WILL APPLY IN THE CASE OF PROMOTEES.	PERIOD OF PROBATION, IF ANY.	METHOD OF RECRUITMENT WHETHER BY DIRECT RECRUITMENT, OR BY PROMOTION OR BY DEPUTATION/ ABSORPTION AND PERCENTAGE OF VACANCIES TO BE FILLED BY VARIOUS METHODS
7.	8.	9.	10.
<b>ESSENTIAL :-</b> (I) 12 <sup>TH</sup> PASS FROM A RECOGNIZED INSTITUTION/ BOARD/ SCHOOL.  (II) DIPLOMA IN THE TRADE OF CARPENTER- CUM- PATTERN MAKER FROM INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE OR ANY OTHER RECOGNIZED INSTITUTION.	NOT APPLICABLE.	TWO YEARS FOR DIRECT RECRUIT.	(i) 50% BY PROMOTION FAILING WHICH BY DIRECT RECRUITMENT.  (ii) 50% BY DIRECT RECRUITMENT.

IN CASE OF RECRUITMENT BY PROMOTION OR DEPUTATION/ABSORPTION, GRADES FROM WHICH PROMOTION OR DEPUTATION/ ABSORPTION TO BE MADE.	IF A DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE EXISTS, WHAT IS ITS COMPOSITION.	CIRCUMSTANCES IN WHICH UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION IS TO BE CONSULTED IN MAKING RECRUITMENT.
11.	12.	13.
<b>PROMOTION:-</b> CARPENTER 1ST CLASS WORKING IN LEVEL 4 ( Rs.25500-81100) IN THE PAY MATRIX WITH 5 YEARS SERVICE RENDERED AFTER APPOINTMENT THERETO ON REGULAR BASIS.	<b><u>CATEGORY 'C' DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE FOR PROMOTION.</u></b>  1.DIRECTOR(A&P) CHAIRMAN 2.S.E.(CIVIL) MEMBER 3. A.C (W) MEMBER	CONSULTATION WITH UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION NOT NECESSARY.

By Order and in the Name of  
 Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,  
 P. K. SHUKLA, Section Officer (Water)